

## Combined Higher Secondary Level Examination 2024 Tier I

Venue Name	
Exam Date	11/07/2024
Exam Time	2:30 PM - 3:30 PM
Subject	CHSL Exam 2024 Tier I

**Q.1** The following sentence has been divided into three segments. Identify the segment that contains a grammatical error. If you don't find any error, select 'No error' as your answer.

It was possible to achieve anything, / if one has the grit and determination / to keep going.

- Ans  1. if one has the grit and determination  
 2. It was possible to achieve anything,  
 3. No error  
 4. to keep going.

**Q.2** Identify the error in the tense of the sentence and select the option that correctly rectifies the error.

Between two evils, I always picks the one I have never tried before.

- Ans  1. Between two evils, I always is picking the one I have never tried before.  
 2. Between two evils, I always picking the one I have never tried before.  
 3. Between two evils, I always pick the one I have never tried before.  
 4. Between two evils, I always picked the one I have never tried before.

**Q.3** The following sentence has been divided into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error.

My Vice-Chancellor works / eighteen hours / a day, / seven days week.

- Ans  1. a day,  
 2. seven days week.  
 3. My Vice-Chancellor works  
 4. eighteen hours

**Q.4** The following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error.

The teacher will / certainly help you / if you will / ask her.

- Ans  1. certainly help you  
 2. if you will  
 3. ask her  
 4. The teacher will



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**Comprehension:**

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

Organic agriculture offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilisers and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on \_\_\_\_1\_\_\_\_\_. Organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on a \_\_\_\_2\_\_\_\_\_. Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming, thus providing us with healthy foods. Since organic farming requires more labour input than \_\_\_\_3\_\_\_\_\_, India will find organic farming an attractive \_\_\_\_4\_\_\_\_\_. Finally, the produce is pesticide-free and produced in an environmentally \_\_\_\_5\_\_\_\_ way.

**SubQuestion No : 5**

**Q.5 Select the most appropriate option to fill in blank number 1.**

- Ans  1. expenditure  
 2. investment  
 3. loss  
 4. profit

**Comprehension:**

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

Organic agriculture offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilisers and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on \_\_\_\_1\_\_\_\_\_. Organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on a \_\_\_\_2\_\_\_\_\_. Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming, thus providing us with healthy foods. Since organic farming requires more labour input than \_\_\_\_3\_\_\_\_\_, India will find organic farming an attractive \_\_\_\_4\_\_\_\_\_. Finally, the produce is pesticide-free and produced in an environmentally \_\_\_\_5\_\_\_\_ way.

**SubQuestion No : 6**

**Q.6 Select the most appropriate option to fill in blank number 2.**

- Ans  1. rise  
 2. stagnation  
 3. decline  
 4. growth

**Comprehension:**

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

Organic agriculture offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilisers and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on \_\_\_\_1\_\_\_\_\_. Organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on a \_\_\_\_2\_\_\_\_\_. Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming, thus providing us with healthy foods. Since organic farming requires more labour input than \_\_\_\_3\_\_\_\_\_, India will find organic farming an attractive \_\_\_\_4\_\_\_\_\_. Finally, the produce is pesticide-free and produced in an environmentally \_\_\_\_5\_\_\_\_ way.

**SubQuestion No : 7**

**Q.7 Select the most appropriate option to fill in blank number 3.**

- Ans  1. conventional  
 2. mechanical  
 3. rigorous  
 4. insipid



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**Comprehension:**

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

Organic agriculture offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilisers and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_. Organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on a \_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_. Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming, thus providing us with healthy foods. Since organic farming requires more labour input than \_\_\_\_ 3 \_\_\_\_ farming, India will find organic farming an attractive \_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_. Finally, the produce is pesticide-free and produced in an environmentally \_\_\_\_ 5 \_\_\_\_ way.

**SubQuestion No : 8**

**Q.8 Select the most appropriate option to fill in blank number 4.**

Ans  1. obstacle

2. proposition

3. burden

4. challenge

**Comprehension:**

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

Organic agriculture offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilisers and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_. Organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on a \_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_. Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming, thus providing us with healthy foods. Since organic farming requires more labour input than \_\_\_\_ 3 \_\_\_\_ farming, India will find organic farming an attractive \_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_. Finally, the produce is pesticide-free and produced in an environmentally \_\_\_\_ 5 \_\_\_\_ way.

**SubQuestion No : 9**

**Q.9 Select the most appropriate option to fill in blank number 5.**

Ans  1. destructive

2. harmful

3. sustainable

4. innovative

**Q.10 Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select 'No substitution required'.**

The film was made in Botswana, whose wildlife parks is larger to those in Kenya.

Ans  1. No substitution required

2. are larger than

3. are large than

4. as large than

**Q.11 Select the correctly spelt word.**

Ans  1. Quientessential

2. Quintessential

3. Quintesential

4. Quintessintial



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

**Q.12 Select the most appropriate synonym of the given word.**

Anxiety

- Ans  1. Ease  
 2. Serenity  
 3. Dilemma  
 4. Distress

**Q.13 Select the most appropriate homophones to fill in the blanks.**

I \_\_\_\_\_ that he has been promoted to the post of \_\_\_\_\_ officer.

- Ans  1. herd; ceiling  
 2. heard; ceiling  
 3. heard; sealing  
 4. herd; sealing

**Q.14 Select the most appropriate ANTONYM of the underlined word.**

I left the job because of a hostile working environment.

- Ans  1. Violent  
 2. Friendly  
 3. Rustic  
 4. Morose

**Q.15 Select the most appropriate option to fill in the blank.**

The guard did not want anything bad to happen, so he ordered the group to step back to avoid anything \_\_\_\_\_.

- Ans  1. diplomatic  
 2. customary  
 3. terrible  
 4. habitual

**Q.16 Rectify the sentence by selecting the correct spelling from the options.**

Psycology developed as a significant discipline of study in the twentieth century.

- Ans  1. Psychology  
 2. Psychology  
 3. Psichology  
 4. Pscycology

**Q.17 Select the most appropriate meaning of the given idiom.**

To throw dust in one's eyes

- Ans  1. To make someone blind forever  
 2. To hit someone with stone  
 3. To mislead someone by tricks  
 4. To talk in an abusive language

**Q.18 Select the option that will improve the underlined part of the given sentence.**

Neither Janki or I am to receive the award.

- Ans  1. either  
 2. nor  
 3. not  
 4. no



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**Q.19** Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence.

He has recovered now and is feeling too strong to walk.

- Ans  1. strong enough to walk  
 2. strong to walk  
 3. too weak to walk  
 4. weak enough to walk

**Q.20** Select the most appropriate ANTONYM of the word 'Contaminate' from the given sentence.

Crews were requested to purify the system since a brain-eating amoeba was discovered in the drinking water.

- Ans  1. purify  
 2. discovered  
 3. system  
 4. requested

**Q.21** Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence.

Peter was the last to know that she had been cheating of him.

- Ans  1. cheating in him  
 2. cheating up him  
 3. cheat of him  
 4. cheating on him

**Q.22** Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence.

Every piece of furniture in her house is in apple-pie order.

- Ans  1. Very neatly arranged  
 2. Painted in light colours  
 3. Very delicately arranged  
 4. Kept in a disorganised way

**Q.23** Select the most appropriate option to fill in the blank and complete the sentence.

You just wait in the lobby. I will be back after \_\_\_\_\_.

- Ans  1. a fast meal  
 2. a quick shower  
 3. a fast shower  
 4. a quick food

**Q.24** Select the most appropriate homophones to fill in the blanks.

It was against her \_\_\_\_\_ to earn more \_\_\_\_\_ than that decided by the board of directors.


- Ans  1. principal; prophet  
 2. principal; profit  
 3. principle; prophet  
 4. principle, profit



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

## **SSC CHSL (10+2) Printed Study Kit**



FREE SHIPPING

- 100% CHSL Exam Syllabus Covered
- 8 Books, 700+ Pages
- 2500+ MCQs
- Solved Papers & Mock Tests
- 1 Year Current Affairs



SSCPORTAL.IN  
India's Largest Online Community for SSC CHSL, Railways, Bank, State, Central Govt.

# **SSC CHSL**

## **PDF NOTES**

**100% Syllabus Covered**



**50%  
OFF**

**CLICK HERE**

<https://sscportal.in/study-kit/chsle>

Q.25 Select the most appropriate ANTONYM of the given word.

Queer

- Ans  1. Doubtful  
 2. Eccentric  
 3. Ordinary  
 4. Fantastic

Q.1 दपण को नीचे दशाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दपण . तिबिंब का चयन कीजिए।




- Ans  1. R 7 a m d 2  
 2. R 7 a m d 2  
 3. d 2 m a 7 R  
 4. R 7 a m d 2







**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**Q.2** दर्पण को दर्शाए गए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



**Ans**



**Q.3** यदि 'A' का अर्थ ' $\div$ ', 'B' का अर्थ ' $\times$ ', 'C' का अर्थ '+' और 'D' का अर्थ ' $\cdot$ ' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?

5 B 5 C 216 A 9 D 3 = ?

**Ans** **X** 1. 32

**X** 2. 64

**✓** 3. 46


**X** 4. 23







**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

Q.4 दपण को AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दपण . तिबिंब का चयन कीजिए।



Ans



Q.5 उस शब्द-युम का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युम में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है।

(शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या/व्यंजन-स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए।)

संपीड़ित : विस्तार

Ans

- ✓ 1. सीमा : असीम
- ✗ 2. बचाव : रक्षा
- ✗ 3. आशावान : आशावादी
- ✗ 4. निरीक्षण : अनुसरण



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**Q.6** एक निश्चित कूट भाषा में,

- 'A + B' का अर्थहै, 'A, B की बहन है',
- 'A - B' का अर्थहै, 'A, B का भाई है',
- 'A × B' का अर्थहै, 'A, B के पिता है',
- 'A ÷ B' का अर्थहै, 'A, B की पुत्री है'.

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'J ÷ K + L × O - P' है, तो K का P से 1 संबंध है?

**Ans**  1. पिता की बहन

2. माता की बहन

3. बहन

4. माता

**Q.7** अंग्रेजी वण्डाला क्रम के आधार पर CEHM, YADI से एक निम्नि त प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार, IKNS, EGJO से संबंधित है। समान तक्का अनुसरण करते हुए, OQTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

**Ans**  1. KMPU

2. KNOU

3. KNPU

4. KOPU

**Q.8** निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?

800 400 480 240 320 ?

**Ans**  1. 120

2. 160

3. 200

4. 180

**Q.9** दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

50, 51, 54, 55, 58, ?

**Ans**  1. 64

2. 59

3. 62

4. 60

**Q.10** यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए और '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$24 \div 9 + 182 \times 13 - 2 = ?$

**Ans**  1. 172

2. 224

3. 238

4. 204




Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Q.11 उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में  
अंतर्निहित है  
(घुमाने की अनुमति नहीं है)।

Ans



Q.12 यदि श NUCLEAR के . त्येक अ०र को वण्णाला के क्रम में □ वथ त किया जाए, तो कितने अ०रों  
का प्रथान अपर वतिष्ठ रहेगा?

Ans  1. एक

2. एक का भी नहीं

3. तीन

4. दो

Q.13 निम्निख त चार अ०र-समूहों में से तीन अ०र-समूह एक निम्न प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक  
समूह बनाते हैं। वह कौन-सा अ०र-समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है?

(I न दें: असंगत अ०र-समूह, उस अ०र-समूह में □ जनों/स्वरों की सां या उनके प्रथान पर आधार त  
नहीं है।)

Ans  1. HKM

2. RVX

3. CGI

4. JNP



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

## CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.14 तीन कथनों के बाद I, II, मांकित निष्कर्षदिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे समान्यतः I त तो से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कि कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष ताकिक्रं रूप से दिए गए कथन/कथनों के अनुसार है/हैं।

कथन:

सभी मैदान, पवन हैं।

कुछ मेजें, मैदान हैं।

सभी पवन, पी है।

निष्कर्ष(I): कोई मेजें, पी नहीं है।

निष्कर्ष(II): सभी पी, मैदान है।

Ans  1. केवल नि. र्ष (II) कथनों के अनुसार है।

2. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) कथनों के अनुसार हैं।

3. केवल निष्कर्ष (I) कथनों के अनुसार है।

4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) कथनों के अनुसार है।

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TWIN' को '2359' लिखा जाता है और 'WING' को '5302' लिखा जाता है। उस कूट भाषा में 'T' को कैसे लिखा जाएगा?

Ans  1. 9

2. 2

3. 5

4. 3

Q.16 वण के उस संयोजन का चयन कीजिये जिसे दिए गए वण्ठखला के रूपानों में क्रमिक रूप से रखने पर खला पूरी हो जाएगी।

a\_z b\_y c\_x\_a z\_b y c c\_a a\_b b\_c c x\_a z\_b y\_c x

Ans  1. bacabzxyabc

2. bacazbxyacb

3. abcabxzyabc

4. acbacxzyabc

Q.17 यदि 18 जनवरी 2013 को शुक्रवार था, तो 19 दिसंबर 2021 को सा ह का कौन सा दिन था?

Ans  1. बुधवार

2. गुरुवार

3. रविवार

4. शनिवार

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'DARK' को '3975' लिखा जाता है और 'READ' को '5873' लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 'K' को कैसे लिखा जाएगा?

Ans  1. 7

2. 9

3. 3


4. 5



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

Q.19 दी गई आकृति म.कितने आयत हैं?




Ans  1. 16

2. 15

3. 17


4. 17 से अधिक

Q.20 कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाइ गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा?




Ans


1.




2.



3.



4.



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

Q.21 उस समूचय का चयन कीजिए जिसम.सां एं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समूचयों की सां एं संबंधित हैं।


(I न दें: सां ओं को उनके घटक अंकों में अलग-अलग किए बिना पूण्यां ओं पर संि याएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सां 13 - सां 13 पर संि याएं जैसे 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग-अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय संि याएं करने की अनुमति नहीं है।)

(25, 8, 11)





(28, 8, 12)

Ans  1. (22, 13, 19) 2. (17, 7, 8) 3. (42, 6, 21) 4. (15, 5, 8)

Q.22 विको में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिह्न (?) के प्रथान पर रखने पर पूर्खला ताकिक्र रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

 1. 2. 3. 4.

Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.23 अरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई खला के रिथानों म.क्रमिक रूप से रखने पर खला पूरी हो जाएगी।

JIG\_KG\_U\_EGZM\_GE

Ans  1. NGMC

2. PGMC

3. NGCL

4. PGLC

Q.24 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$$17 \div 4 - 28 + 125 \times 5 = ?$$

Ans  1. 71

2. 74

3. 73

4. 72

Q.25 एक निम्न तत्काला अनुसरण करते हुए 13, 156 से संबंधित है। उसी तत्काला अनुसरण करते हुए 22, 264 से संबंधित है। उसी तत्काला अनुसरण करते हुए, 31 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(I) न दें: सां औं को उनके घटक अंकों में अलग-अलग किए बिना पूण्ड्रां औं पर संि याएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सां 13 - सां 13 पर संि याएं जैसे 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग-अलग करने की ओर फिर 1 और 3 पर गणितीय संि याएं करने की अनुमति नहीं है।)

Ans  1. 372

2. 370

3. 374

4. 376

Q.1  $\triangle ABC$  और  $\triangle DEF$  समरूप त्रिभुज हैं और उनका क्षेत्रफल क्रमशः  $81 \text{ cm}^2$  और  $144 \text{ cm}^2$  है। यदि  $EF = 20 \text{ cm}$  है, तो  $BC$  का मान ज्ञात कीजिए।

Ans  1. 13 cm

2. 9 cm

3. 15 cm

4. 12 cm

Q.2 यदि  $640 \div 8 + 930 \div 15 - k + 32 \times 5 = 1104 \div 16 \times 148 \div 37$  है, तो  $k$  का मान है?

Ans  1. 35

2. 26

3. 276

4. 302




Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

## CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

- Q.3 नि लिखित आरेख का अ यन कीजिए और उसके नीचे दिए गए . श्र का उत्तर दीजिए।  
निलिख त दंड आरेख दिए गए वष में दो कंपनियों A और B रा अजित प्रतिशत लाभ को दशाता है।



संदभ Company = कंपनी, PROFIT % = लाभ %

2006 में दो कंपनियों A और B की आय क्रमशः 3 : 4 के अनुपात में थी। 2006 में उनके य का क्रमशः अनुपात 1 था?

- Ans  1. 14 : 19  
 2. 7 : 22  
 3. 15 : 22  
 4. 27 : 35

- Q.4  $1\frac{1}{3} \div \left[ 2\frac{1}{6} \div \left\{ 14\frac{1}{3} - \left( 2\frac{1}{3} + 3\frac{1}{2} \right) \right\} \right]$  का मान क्या है?

- Ans  1.  $3\frac{2}{17}$   
 2.  $3\frac{2}{13}$   
 3.  $5\frac{3}{13}$   
 4.  $4\frac{3}{17}$

- Q.5 यदि य र जल में एक नाव की चाल 3 km/h है और यदि धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 km/h है, तो धारा की चाल 1 त कीजिए।


- Ans  1. 0.25 km/h  
 2. 1 km/h  
 3. 2 km/h  
 4. 0.5 km/h



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

## **SSC CHSL (10+2) Printed Study Kit**



FREE SHIPPING

- 100% CHSL Exam Syllabus Covered
- 8 Books, 700+ Pages
- 2500+ MCQs
- Solved Papers & Mock Tests
- 1 Year Current Affairs



SSCPORTAL.IN  
India's Largest Online Community for SSC CHSL, Railways, Bank, State, Central Govt.

# **SSC CHSL**

## **PDF NOTES**

**100% Syllabus Covered**



**50%  
OFF**

**CLICK HERE**

<https://sscportal.in/study-kit/chsle>

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

**Q.6**  $\Delta ABC \sim \Delta EDF$  और क्षेत्रफल( $\Delta ABC$ ) : क्षेत्रफल( $\Delta EDF$ ) = 1:4 है। यदि  $AB = 7$  cm,  $BC = 8$  cm और  $CA = 9$  cm है, तो  $DF$  बराबर होगा:

- Ans  1. 16 cm  
 2. 14 cm  
 3. 12 cm  
 4. 18 cm

**Q.7** एक पंखे का क्रय मूल्य ₹4,400 है। एक व्यापारी इसे बेचकर 24% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय, व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।

- Ans  1. ₹6,020  
 2. ₹2,600  
 3. ₹2,060  
 4. ₹ 6,200

**Q.8** क्रमशः 3 इकाई और  $r$  इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 इकाई है। यदि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई  $\sqrt{35}$  इकाई है, तो  $r$  का मान \_\_\_\_\_ इकाई है।

- Ans  1. 5  
 2. 3  
 3. 4  
 4. 6

**Q.9** मान लीजिए  $C$  एक वृ. है, जिसका केंद्र  $O$  है और  $PQ, C$  का  $A$  से है। मान लीजिए  $AB, C$  पर एक जीवा है। यदि  $\angle QOB = 40^\circ$ ,  $\angle AOP = 80^\circ$ , तो  $\angle AOB$  त कीजिए।

- Ans  1.  $60^\circ$   
 2.  $90^\circ$   
 3.  $70^\circ$   
 4.  $100^\circ$

**Q.10** 0.72 और 2.85 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए (दशमलव के एक स्थान तक सन्त्रिक्षित)।

- Ans  1. 0.4  
 2. 2.8  
 3. 1.4  
 4. 0.7

**Q.11** दो क्रमिक वर्ष में एक कंपनी के 75 और 50 कमाईयाँ विभागीय परीक्षा में उपथ त हुए। उनमें से क्रमशः 84% और 52% उी ज्ञाहुए। उी ज्ञाप्रतिशत की औसत दर कितनी है?

- Ans  1.  $41\frac{1}{5}\%$   
 2. 71%  
 3. 41%  
 4.  $71\frac{1}{5}\%$



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

- Q.12 एक पिता और बेटे की वयमान आयु का योग 50 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुना होगी, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु 1 थी?

- Ans  1. 40  
 2. 36  
 3. 43  
 4. 47

- Q.13 दो वृ. हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से □ शाक्रते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की  $\text{परिधि} = 12 \text{ cm}$  है। केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की  $\text{परिधि} = 5 \text{ cm}$  है। दोनों वृत्तों को बिंदु P और Q पर □ शाक्रते वाली उनकी उभयनिष्ठ □ शारेखा की लंबाई 1 त कीजिए।

- Ans  1.  $4\sqrt{15} \text{ cm}$   
 2.  $5\sqrt{14} \text{ cm}$   
 3.  $5\sqrt{41} \text{ cm}$   
 4.  $14\sqrt{5} \text{ cm}$

- Q.14 एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है। इसे ₹2,250 अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा। यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना है?

- Ans  1. ₹15,000  
 2. ₹16,120  
 3. ₹15,800  
 4. ₹16,800

- Q.15 दी गई तालिका लिंग और साक्षरता के अनुसार जनसंख्या (केवल पुरुष और महिला) का प्रतिशत बंटन दर्शाती है।

राज्य	प्रतिशत साक्षर	लिंग	
		साक्षर	निरक्षर
		पुरुष : महिला	पुरुष : महिला
A	55	5 : 6	4 : 5
B	72	1 : 1	3 : 2
C	78	4 : 3	3 : 2

यदि राज्य B में 7 करोड़ लोग हैं, तो राज्य में निरक्षर महिलाओं की संख्या जात करें।

- Ans  1. 201.6 लाख  
 2. 117.6 लाख  
 3. 130.67 लाख  
 4. 78.4 लाख



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.16 टीना एक काम का आधा भाग 6 दिनों में पूरा करती है। बाद में, 1 म की मदद से, वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करती है। 1 म अकेले संपूणक्राम कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- Ans  1. 21 दिन  
 2. 18 दिन  
 3. 24 दिन  
 4. 12 दिन

Q.17 शांतनु की आय ₹42,800 से घटकर ₹37,236 हो गई। उसकी आय में प्रतिशत कमी 1 त कीजिए।

- Ans  1. 13%  
 2. 14%  
 3. 11%  
 4. 12%

Q.18 एक घनाभ का संपूणाप्ती य डोत्रफल 1 त करें, जिसकी लंबाई 19 cm, चौड़ाई 9 cm और ऊंचाई 4.5 cm है।

- Ans  1.  $594 \text{ cm}^2$   
 2.  $917 \text{ cm}^2$   
 3.  $497 \text{ cm}^2$   
 4.  $619 \text{ cm}^2$

Q.19 कितने वर्ष में ₹4,250 की धनराशि पर 6% वाषिक दर से ₹510 का साधारण 1 ज मिलेगा?

- Ans  1. 2 वर्ष  
 2.  $3\frac{1}{2}$  वर्ष  
 3. 3 वर्ष  
 4.  $2\frac{1}{2}$  वर्ष

Q.20 200 छात्रों की एक कक्षा में, 50 छात्रों के औसत अंक 40 है, और शेष 150 छात्रों के औसत अंक 60 है। छात्रों का भारित औसत ज्ञात कीजिए।


- Ans  1. 50  
 2. 150  
 3. 55  
 4. 200



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

- Q.21 निम्न ग्राफ पाँच वर्षों में होने वाले गेहू के आयात (हजार टन में) को दर्शाता है:



Wheat imports (in thousand tonnes): गेहू आयात (हजार टन में)

औसत से कम आयात वाले वर्षों और औसत से अधिक आयात वाले वर्षों के बीच अनुपात कितना है?

- Ans  1. 2 : 3  
 2. 1 : 3  
 3. 3 : 2  
 4. 3 : 1

- Q.22 एक उत्पाद के मूल्य में पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। दो वर्षों में उत्पाद के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है?

- Ans  1. 28%  
 2. 32%  
 3. 30%  
 4. 36%

- Q.23  $\frac{\sin 60^\circ - \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ + \cos 60^\circ}$  को सरल कीजिए।

- Ans  1.  $2 - \sqrt{3}$   
 2.  $\sqrt{3} - 2$   
 3.  $\sqrt{3} - 1$   
 4.  $2 + \sqrt{3}$



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS


[CLICK HERE](#)

## CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.24 दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

बार ग्राफ में 2004 से 2007 के दौरान पाँच अलग-अलग कंपनियों A, B, C, D और E द्वारा रेफिजरेटर के उत्पादन (हजार में) को दर्शाया गया है।



वर्ष 2005-2006 के दौरान सभी कंपनियों के रेफिजरेटर के औसत उत्पादन के 60% और 2006-2007 के दौरान सभी कंपनियों के औसत उत्पादन के 70% के बीच का अंतर कितना है?

- Ans  1. 400  
 2. 4000  
 3. 4  
 4. 40

Q.25 एक गोलाकार गद्द का पृष्ठ घेरफल  $1386 \text{ cm}^2$  है। इसका आयतन  $\text{I}$  होगा?

- Ans  1.  $1.5000 \text{ cm}^3$   
 2.  $4825 \text{ cm}^3$   
 3.  $4851 \text{ cm}^3$   
 4.  $4800 \text{ cm}^3$

Q.1 कोणाक्षमें सूयामंदिर को किस वंश के शासन के तहत बनाया गया था?

- Ans  1. प. व राजवंश  
 2. पा. राजवंश  
 3. पू. गंगा राजवंश  
 4. राष्ट्रकूट राजवंश

Q.2 1916 में इंडियन होम रूल लीग (Indian Home Rule League) की प्रथापना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध टिश समाज सुधारक का  $\text{I}$  नाम है?

- Ans  1. ऐनी नाइट (Anne Knight)  
 2. कैथरीन ओस्लर (Catherine Osler)  
 3. एनी बेसेंट (Annie Besant)  
 4. मार या राई (Maria Rye)



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.3 एमएस-पावरपॉइंट (MS-PowerPoint) जेटे शन में नई। इड प्रविष्ट करने के लिए कीबोड़ाशॉटकृट  
है?

- Ans  1. Ctrl + S  
 2. Ctrl + X  
 3. Ctrl + N  
 4. Ctrl + M

Q.4 निम्नलिखित में से किस वर्षमें किशोरीय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में  
संशोधन किया गया था?

- Ans  1. 2019  
 2. 2021  
 3. 2013  
 4. 2015

Q.5 रफाइनरी तथा उनके संबंधित राष्ट्रों के संबंध में गलत युद्ध का चयन करें।

- Ans  1. बीना रिफाइनरी - मध्य देश  
 2. कोयली रिफाइनरी - गुजरात  
 3. नुमालीगढ़ रिफाइनरी - असम  
 4. तातीपका रिफाइनरी - तेलंगाना

Q.6 उच्च उत्पादन वाली किस्मों (HYVs) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

- Ans  1. इन्होने हरित क्रांति तकनीक को भूमि बचाने वाली तकनीक बना दिया।  
 2. कृषि मशीनों में अधिक निवेश के आकर्षण के साथ HYVs का उपयोग पूरक था।  
 3. HYVs की परिपक्वता अवधि कम थी।  
 4. HYVs के कारण फसल की सघनता में कमी आई।

Q.7 \_\_\_\_\_ जनसंख्या में गैर-न्यूमिकों के सापेक्ष न्यूमिकों के अनुपात में वृद्धि का पर नाम है।

- Ans  1. जनसंख्या गति  
 2. वृद्धि वा वाधा निभरता अनुपात  
 3. जनसांख्यिकीय लाभांश  
 4. जनसंख्या की आयु संरचना

Q.8 तलवारबाजी (Fencing) में, एक रात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट (blade movement) जो प्रतिवारी  
की आम रात्मक कारखाई को रोकता है उसे \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

- Ans  1. रीडबलमेंट (redoublement)  
 2. पारी (parry)  
 3. री इज़ (reprise)  
 4. साबेर (saber)



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.9 कौन-सा लोक संगीत, तमिलनाडु से संबंधित नहीं है?

Ans  1. नाट्टुपुरा (Nattupura)

2. वि. पट्टू (Villi Pattu)

3. आ नैवारी (Ammanaivari)

4. खूबकेशी (Khubakeshei)

Q.10 वाजिद अली शाह के समय अ.. त्व में आया लखनऊ घराना निलिख त में से किसके । रा विकसित किया गया था?

Ans  1. पंडित ठाकुर दासद

2. उद्बा वर खान

3. पंडित कालका दासद

4. पंडित बिंदावर दासद

Q.11 2022 तक की थ ति के अनुसार, भारत में सबसे लंबा पनविजली संयंत्र (hydroelectric power plant) कौन-सा है?

Ans  1. कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर । ट (Koyna Hydroelectric Power Plant)

2. सरदार सरोवर जलविद्युत संयंत्र (Sardar Sarovar Hydropower Plant)

3. टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर । ट (Tehri Hydroelectric Power Plant)

4. नाथपा झाकरी पावर । ट (Nathpa Jhakri Power plant)

Q.12 किस र ट का शा क अथहै 'आपका अधिकार । है'?

Ans  1. अधिकार पृ (quo-warranto)

2. प्रतिषेध (prohibition)

3. परमादेश (mandamus)

4. बंदी दृष्टि करण (Habeas corpus)

Q.13 वह भारतीय बौ भिट्ठु कौन थे जिन्हें 5वीं शतां में कई । चीन माशाल आटाशैलियों के विकास का प्रयोग दिया जाता है?

Ans  1. अतिसा (Atisa)

2. परमार्थ (Paramartha)

3. बोधिरुचि (Bodhiruchi)

4. बोधिधर्म (Bodhidharma)



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.14 भ A में दिए गए भारत के पड़ोसी देशों को स्तंभ B में दी गई उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए।

स्तंभ A (देशों के नाम)	स्तंभ B (राजभाषाएं)
1. श्रीलंका	a. मंदारिन
2. चीन	b. बर्मी
3. म्यांमार	c. तमिल
4. भूटान	d. जोंगखा

- Ans  1. 1-d, 2-a, 3-b, 4-c  
 2. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d  
 3. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d  
 4. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d

Q.15 जमिस्त भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ऑम (Georg Simon Ohm) को 1827 में उनके 1 रा की गई निरूपित तरह में से किस खोज के लिए जाना जाता है?

- Ans  1. नाभिकीय कणों के चुंबकीय गुणों को मापने के लिए  
 2. विद्युत चुंबकीय संकेतों को पर वर्धित और आपर वर्तन (एम्पलीफाई और मॉप्लॉट) करने में सहायता उपकरण विकसित करने के लिए, जो एक दोलक (ऑसिलेटर) के रूप में भी कार्य कर सकता है  
 3. मैट्रोमीटर का आविष्कार करने के लिए, जो किसी चुंबकीय प्रैम्प की दिशा और शक्ति को मापने में सहायता उपकरण है  
 4. विद्युत धारा, वितरीधि और वोल्टेज (voltage) के बीच गणितीय संबंध को निश्चित करने के लिए

Q.16 भारत के संविधान का कौन सा अनुदेश नागरिकता के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को पूछा गया प्रदान करता है?

- Ans  1. अनुदेश 5  
 2. अनुदेश 11  
 3. अनुदेश 6  
 4. अनुदेश 8

Q.17 बैडमिंटन में, 0 पॉइंट को \_\_\_\_\_ कहा जाता है।

- Ans  1. इन (in)  
 2. प्ले (play)  
 3. आउट (out)  
 4. लव (love)

Q.18 निरूपित तरह में से किस ग्रह के वलय नहीं होते हैं?

- Ans  1. बृहस्पति  
 2. अरुण  
 3. शनि  
 4. शुक्र



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.19 नि लिखित म.से कौन-सा शी य कनाटक संगीत का तत्व नहीं है?

- Ans  1. दुमरी  
 2. कृति  
 3. थायी  
 4. पदम

Q.20 सरकारी बजट में राजस्व घाटा। है?

- Ans  1. य पर राज. की अधिकता, ऋण पर। ज भुगतान को शामिल करकर  
 2. ॥ य पर राजस्व की अधिकता, ऋण पर। ज भुगतान को छोड़कर  
 3. राजस्व पर ॥ य की अधिकता, ऋण पर। ज भुगतान को छोड़कर  
 4. राजस्व पर ॥ य की अधिकता, ऋण पर। ज भुगतान को शामिल करकर

Q.21 माझे सॉफ्ट वडामें, मेल मज़ाविज़ाड़ा(Mail Merge Wizard) \_\_\_\_\_ टैब में होता है।

- Ans  1. र ॥ (Review)  
 2. मेलिंग (Mailings)  
 3. इंसर्ट (Insert)  
 4. होम (Home)

Q.22 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे?

- Ans  1. जोसिप ब्रोज टीटो (Josip Broz Tito)  
 2. क्वामे नक्रमा (Kwame Nkrumah)  
 3. जमाल अब्देल नासिर (Gamal Abdel Nasser)  
 4. सुकर्णो (Sukarno)

Q.23 10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू किया गया था?

- Ans  1. सिकिम  
 2. नगालैंड  
 3. अरुणाचल प्रदेश  
 4. मिजोरम

Q.24 निम्नलिखित में से कौन-सा आनुवंशिक विकारों का एक दुलष्ण समूह है, जो कुछ जीनों में उत्पर वत्तम के कारण पैदा होता है और त्वचा, बालों और आंखों के रंग (रंजकता) को प्रभावित करता है?


- Ans  1. अलागिल सिंड्रोम (Alagille syndrome)  
 2. एंजेलमैन सिंड्रोम (Angelman syndrome)  
 3. अलागिल सिंड्रोम (Alagille syndrome)  
 4. एल्बिनिंग (Albinism)



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

## **SSC CHSL (10+2) Printed Study Kit**



FREE SHIPPING

- 100% CHSL Exam Syllabus Covered
- 8 Books, 700+ Pages
- 2500+ MCQs
- Solved Papers & Mock Tests
- 1 Year Current Affairs



SSCPORTAL.IN  
India's Largest Online Community for SSC CHSL, Railways, Bank, State Exams

# **SSC CHSL**

## **PDF NOTES**

**100% Syllabus Covered**



**50%  
OFF**

**CLICK HERE**

<https://sscportal.in/study-kit/chsle>

**CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES**

CHSL Exam 2024 Tier I (11-07-2024 - 2-30 PM - 3-30 PM)

Q.25 भारतीय दंड संहिता की नि लिखित म.से किस धारा का संबंध 'बला र' से है?

- Ans  1. धारा 385  
 2. धारा 375  
 3. धारा 380  
 4. धारा 370



**Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS**

[CLICK HERE](#)